



02 मई 2022

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट



Moneywise. Be wise.



प्रमुख खबरें

- डब्ल्यूजीसी के अनुसार, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण 2022 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर सोने की मांग साल-दर-साल 34 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तीन साल में सबसे अधिक हो गई।
- वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार जनवरी-मार्च में भारत में सोने की मांग 18% घटकर 135.5 टन रह गई क्योंकि शुभ आयोजनों में कमी और कीमतों में तेज वृद्धि ने सेंटिमेंट को प्रभावित किया।
- वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार खदानों से अधिक उत्पादन के कारण सोने की कुल आपूर्ति में सालाना आधार पर 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2021 की समान तिमाही के 856 टन से बढ़कर जनवरी-मार्च 2022 में 1,108.8 टन तक पहुंच गई।
- इस्पात राज्य मंत्री के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 22 के दौरान 13.5 मिलियन टन तैयार स्टील का निर्यात किया, जिसकी कीमत एक लाख करोड़ रुपये थी।
- इंटरनेशनल निकेल स्टडी ग्रुप के अनुसार 2022 में निकेल की वैश्विक मांग बढ़कर 3.02 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो 2021 में 2.78 मिलियन टन थी।
- चालू फसल वर्ष में प्रचंड गर्मी और कम रकबे के कारण भारत का गेहूं उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष 4.2% कम होकर 105 मिलियन टन होने की उम्मीद है भारत ने पिछले साल 109.6 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया था।
- दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल निर्यातक इंडोनेशिया ने कच्चे पॉम तेल पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर खाद्य मुद्रास्फीति खराब होने की आशंका को लेकर बाजार में अनिश्चितता बढ़ रही है।
- स्विस् ज़िंक स्मेल्टर न्यारस्टार ने कहा कि वह होबार्ट में इलेक्ट्रोलिसिस प्लांट बनाने के लिए 284 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया में धातु के उत्पादन को बढ़ाने में मददगार है।
- चीन के वित्त मंत्रालय के अनुसार, चीन 1 मई, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक सभी प्रकार के कोयले के आयात शुल्क में कटौती करेगा।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	22.0422	28.04.22	बदलाव (%)
मक्का	2088.00	180.00	4.41%
रिफाइंड सोया तेल	1565.80	1623.80	3.70%
कैस्टरसीड	7182.00	7248.00	0.92%
कैस्टर ऑयल	1451.00	1462.00	0.76%
ग्वारगम	12435.00	12528.00	0.75%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	22.04.22	28.04.22	बदलाव (%)
मूंग	7073.00	6817.00	-3.62%
कॉटनऑयलसीडकेक	2883.00	2784.00	-3.43%
सीसेम सीड	11940.00	11580.00	-3.02%
धनिया	12480.00	12178.00	-2.42%
स्टील	57690.00	56530.00	-2.01%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	22.04.22	28.04.22	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	520.40	536.40	3.07%
कच्चा तेल	7824.00	037.00	2.72%
कॉटन	44240.00	45370.00	2.55%
रबर	16950.00	17174.00	1.32%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	22.04.22	28.04.22	बदलाव (%)
एल्युमीनियम	268.35	253.50	-5.53%
ज़िंक	370.00	352.50	-4.73%
चांदी	67375.00	64580.00	-4.15%
तांबा	808.40	787.20	-2.62%
सोना	52261.00	51262.00	-1.91%

साप्ताहिक समीक्षा

डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त तेजी के बावजूद सीआरबी इंडेक्स में निचले स्तर से रिकवरी हुई। सप्ताह के पहले हिस्से में कमोडिटीज की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली और दूसरी भाग में यह निचले स्तर से कुछ हद तक उबर गई। बैंक ऑफ जापान के अपनी अत्यंत आसान नीतियों पर टिके रहने और आवश्यकतानुसार हर सत्र में अंतहीन मात्रा में बांड खरीदने की पेशकश के बाद येन के मुकाबले डॉलर दो दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गया और डॉलर इंडेक्स मार्च, 2020 के उच्च स्तर 102.99 को पार कर गया। एनर्जी में अलग-अलग कारोबार हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुई जबकि नेचुरल गैस की कीमतें 570 के स्तर पर पहुंच गई। दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक चीन में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों की चिंताओं के कारण तेल की कीमतों में गिरावट हुई। इस बीच, अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 22 अप्रैल को समाप्त हफ्ते में अमेरिकी कच्चे तेल की आपूर्ति में 692,000 बैरल की बढ़ोतरी हुई है। आपूर्ति में कमी की आशंका से नेचुरल गैस की कीमतें उछल गईं। रूस की ऊर्जा कंपनी गजप्रॉम ने भी बुधवार को बुल्गारिया और पोलैंड को गैस की आपूर्ति रोकने की अपनी धमकी का पालन किया। अमेरिकी नेचुरल गैस का भंडार अप्रैल के तीसरे सप्ताह में औसत से कम गति से बढ़ा है, जो वसंत के दौरान ठंडे मौसम के कारण भंडार में कमी बढ़ रही है और नाइमेक्स में गैस वायदा की कीमतों में तेजी को मदद मिल रही है। मई महीने में ब्याज दर में तेज वृद्धि के संकेत के बीच डॉलर इंडेक्स में भारी बढ़त के कारण सर्राफा काउंटर में सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी समाप्त हो गई। डॉलर के मजबूत होने से सोने की मांग प्रभावित हुई और अमेरिकी ब्याज दरों में संभावित वृद्धि ने भी सुरक्षित संपत्ति के लिए सेंटिमेंट को कमजोर कर दिया। बेंचमार्क 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में भी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि निवेशकों को फंड द्वारा मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आगे बढ़ने की 'प्रतिबंधात्मक' नीति की योजना पर अधिक स्पष्टता का इंतजार है। एमसीएक्स पर सोने और चांदी की कीमतें क्रमशः 51000 और 64000 के स्तर से नीचे टूट गईं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा कि सोने की वैश्विक मांग पहली तिमाही में साल-दर-साल 34% बढ़कर तीन साल में सबसे अधिक हो गई, जो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और बढ़ती मुद्रास्फीति से चिंतित निवेशकों की ओर से खरीददारी के कारण बढ़ी है। बैंक ऑफ जापान ने अपनी ब्याज दर -0.10% पर स्थिर रखी। शीर्ष धातु उपभोक्ता चीन में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण मांग के बारे में चिंता से बेस मेटल की कीमतों में गिरावट हुई और निवेशकों के बीच जोखिम लेने की क्षमता कम हो गई।

कृषि कमोडिटीज में निचले स्तरों से कुछ रिकवरी हुई। कुछ बेहतर भौतिक मांग के कारण ग्वार काउंटर को मदद मिली। वर्तमान में, पिछले 5 वर्षों में सबसे कम उत्पादन, कई वर्षों में कम स्टॉक और अच्छी निर्यात मांग की संभावना से कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 55.5% अधिक हैं। अरंडी की कीमतों में गिरावट के मोल-भाव की खरीददारी को बढ़ावा मिला और कीमतों में उछाल दर्ज की गई। भौतिक बाजार में आवक अच्छी रही है लेकिन निर्यात मांग से समर्थन मिल रहा है। अरंडी की मांग-आपूर्ति का संतुलन तेजी के पक्ष में है क्योंकि 2021-2022 के लिए अनुमानित खपत लगभग 19-20 लाख टन है जबकि उत्पादन और कैरी ओवर स्टॉक मिलाकर कुल सप्लाई 20-21 लाख टन है। नकारात्मक खबरों के बावजूद कपास की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। देश में कपास की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने सीमा शुल्क हटा दिया और अब देश से कपास के निर्यात को प्रतिबंधित करने की योजना बना रही है।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	14.04.22	21.04.22	(%)
जौ	जयपुर	3,250.25	3,196.20	-1.66
चना	दिल्ली	5,062.50	5,024.30	-0.75
धनिया	कोटा	12,506.60	12,364.65	-1.14
कूड पॉम ऑयल	कांडला	1,483.95	1,591.10	7.22
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,163.05	1,175.65	1.08
ग्वारसीड	जोधपुर	6,350.00	6,400.00	0.79
ग्वारगम	जोधपुर	12,425.00	12,700.00	2.21
जीरा	ऊझा	22,120.00	21,907.80	-0.96
सरसों	जयपुर	7,165.65	7,382.75	3.03
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1,585.00	1,640.00	3.47
सोयाबीन	इंदौर	7,770.90	7,659.50	-1.43
हल्दी	निजामाबाद	8,846.90	8,662.50	-2.08
गेहूं	दिल्ली	2,289.90	2,325.60	1.56
कॉटन	कड़ी	44,460.05	44,101.50	-0.81
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	3,171.65	3,034.55	-4.32

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	22.04.22	28.04.22	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	3,245.50	3,031.50	-6.59
तांबा	LME	नकद	10,110.00	9,697.00	-4.09
लेड	LME	नकद	2,388.50	2,255.00	-5.59
निकल	LME	नकद	33,170.00	32,977.00	-0.58
जिंक	LME	नकद	4,434.50	4,136.50	-6.72
सोना	COMEX	जून	1,934.30	1,891.30	-2.22
चांदी	COMEX	जुलाई	24.32	23.18	-4.69
लाइट कूड	NYMEX	मई	102.07	105.36	3.22
नेचुरल गैस	NYMEX	जून	6.66	6.888	3.38

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	22.04.22	28.04.22	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	जुलाई	16.88	16.85	-0.18
सोया तेल	CBOT	जुलाई	80.51	86.60	7.56
कॉटन	ICE	जुलाई	135.85	147.68	8.71
सीपीओ	BMD	जुलाई	6,355.00	6,914.00	8.80

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	22.04.22 क्वांटिटी	28.04.22 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	741	741	0
जौ	मी.टन	160	100	
कैस्टर सीड	मी.टन	8115	17135	9020
धनिया	मी.टन	6316	8062	1746
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	74470	72098	-2372
ग्वारगम	मी.टन	21487	21692	205
ग्वारसीड	मी.टन	35517	34273	-1244
जीरा	मी.टन	7281	7622	341
मक्का	मी.टन	1086	1086	0
सोयाबीन	मी.टन	1383	1383	0
हल्दी	मी.टन	3857	3296	-561

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	22.04.22 क्वांटिटी	28.04.22 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	4,232.36	5,844.64	1612
तांबा	मी.टन	1,522,275.00	1,698,337.00	176062
सोना	किग्रा	366.00	356.00	-10
सोना गिनी	किग्रा	14,096.00	14,096.00	0
सोना मिनी	किग्रा	256,100.00	128,600.00	-127500
लेड	किग्रा	2,588.36	2,483.88	-104
निकल	किग्रा	331,985.00	314,255.00	-17730
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	50,866.18	66,182.80	15317
जिंक	मी.टन	40.15	354.88	315

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 22.04.22	स्टॉक की स्थिति 28.04.22	अंतर
एल्युमीनियम	589,725	574,550	-15,175
तांबा	130,500	148,500	18,000
निकल	73,068	72,564	-504
लेड	39,725	39,400	-325
जिंक	106,125	98,900	-7,225



ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कॉन्ट्रैक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	मई	22035.00	03.01.22	तेजी	17500.00	21650.00	-	21600.00
NCDEX	ग्वारसीड	मई	6343.00	01.04.22	तेजी	6400.00	6160.00	-	6120.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	मई	2784.00	04.04.22	मंदी	3200.00	-	2980.00	3000.00
MCX	रबर	मई	17174.00	14.12.21	मंदी	17800.00	-	17500.00	17550.00
MCX	मेंथा ऑयल	मई	1086.30	31.03.22	तेजी	1070.00	1045.00	-	1040.00
MCX	बुलडेक्स	मई	14744.00	07.02.22	तेजी	14100.00	14620.00	-	14600.00
MCX	चांदी	मई	64580.00	07.02.22	तेजी	61900.00	63550.00	-	63500.00
MCX	सोना	जून	51262.00	07.02.22	तेजी	48200.00	50800.00	-	50750.00
MCX	मेटलडेक्स	मई	21584.00	16.12.21	तेजी	1670.00	21200.00	-	21000.00
MCX	तांबा	मई	787.20	25.04.22	मंदी	790.00	-	822.00	825.00
MCX	लेड	मई	185.35	25.04.22	मंदी	187.00	-	193.00	194.00
MCX	जिंक	मई	352.50	25.04.22	मंदी	365.00	-	368.00	370.00
MCX	निकल	मई	2550.00	25.04.22	मंदी	2500.00	-	2725.00	2730.00
MCX	एल्युमिनियम	मई	253.50	25.04.22	मंदी	262.00	-	266.00	267.00
MCX	एनर्जीडेक्स	मई	9220.00	15.02.22	तेजी	7200.00	8200.00	-	8000.00
MCX	कच्चा तेल	मई	8037.00	15.02.22	तेजी	6800.00	7330.00	-	7300.00
MCX	नेचुरल गैस	मई	536.20	15.02.22	तेजी	320000	488000	-	485.00

*28/04/2022 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लॉस बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लॉस को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पड़बूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लॉस अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

सोना (जून) एमसीएक्स



सोना(जून) एमसीएक्स

एमसीएक्स में सोना (जून) कॉन्ट्रैक्ट 28 अप्रैल 2022 को 51262.00 रु पर बंद हुआ। 08 मार्च 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 56163.00 रु के उच्च स्तर पर था। 28 जनवरी 2022 को 47534.00 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 47.452 है। 50400.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 52000.00 रु के टारगेट के लिए 50900.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

कैस्टरसीड (मई) एनसीडीईएक्स



कैस्टरसीड(मई) एनसीडीईएक्स

एनसीडीईएक्स में कैस्टरसीड(मई) कॉन्ट्रैक्ट 28 अप्रैल 2022 को 7248.00 रु पर बंद हुआ। 01 अप्रैल 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 7642.00 रु के उच्च स्तर पर था जबकि 08 अप्रैल 2022 को 7050.00 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 60.886 है। 7100.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 7650.00 रु के टारगेट के लिए 7290.00 रु के नजक खरीददारी की जा सकती है।

नेचुरल गैस (मई) एमसीएक्स



नेचुरल गैस (मई) एमसीएक्स

एमसीएक्स में नेचुरल गैस(मई) कॉन्ट्रैक्ट 28 अप्रैल 2022 को 536.40 रु पर बंद हुआ। 18 अप्रैल 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 626.40 रु के उच्च स्तर पर था। 28 फरवरी 2022 को 338.60 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 57.152 है। 535.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 490.00 रु के टारगेट के लिए 520.00 रु से नीचे बिकवाली की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

पिछले हफ्ते अच्छी आवक और निर्यातकों एवं थोक खरीदारों की ओर से कम मांग के कारण उच्च स्तर पर कीमतों में दबाव देखा गया है। भौतिक बाजार में अधिकांश मसालों की कुल आवक मौसम के अनुसार सामान्य रही। हल्दी वायदा (मई) की कीमतें पिछले सप्ताह 5 सप्ताह के निचले स्तर पर फिसल गई और नरमी के रूझान के साथ 8350 और 9100 के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है। फिलहाल निर्यात मांग सामान्य है, लेकिन रमजान के बाद इसमें तेजी आने की उम्मीद है, जबकि कीमतों के साथ आवक कम हो रही है। दक्षिण भारत में भी नए सीजन की बुआई शुरू हो गई है। वर्तमान में कीमतें पिछले साल की तुलना में 9.5% अधिक हैं लेकिन 2022 में लगभग 11% कम हैं। 2021/22 सीजन के लिए सरकार के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2021-22 में हल्दी का उत्पादन 11.76 लाख टन होने का अनुमान है, जो 2020-21 में 11.24 लाख टन था। स्थानीय स्तर पर अधिक कीमतों और अधिक खपत के कारण इस सीजन में हल्दी का निर्यात कम रहा है जबकि उत्पादन पिछले साल की तुलना में अच्छा है। वित्त वर्ष 2021-22 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान हल्दी का निर्यात पिछले साल की तुलना में 20% कम होकर 1.37 लाख टन हुआ है लेकिन 5 साल के औसत की तुलना में 8.3% अधिक है।

अधिक कीमतों और थोक खरीदारों की सामान्य मांग के कारण जीरा वायदा(मई) की कीमतों लगातार चौथे सप्ताह गिरावट हुई है। लेकिन हाज़िर बाजार में आवक कम होने से कीमतों को 22700 के ऊपर सपोर्ट मिल रहा है। अब कीमतों के तेजी के रूझान के साथ 21600-23300 के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है। व्यापारियों को 2021/22 में 5.0-6.0 मिलियन बैग (1 बैग=55 किग्रा) पर जीरा उत्पादन की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष के 8.0-8.5 मिलियन बैग से कम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2022 में जीरा का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 23.6% कम होकर 14000 टन हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2021/22 (अप्रैल-फरवरी) की अवधि में निर्यात वर्ष-दर-वर्ष घटकर 2.02 लाख टन रह गया है जबकि पिछले साल 2.62 लाख टन हुआ था।

धनिया की कीमतों को 12750 के स्तर का रजिस्ट्रेंस का सामना करना पड़ रहा है और यदि कीमतें इस रजिस्ट्रेंस का पार करती हैं तो 13300 के स्तर तक बढ़त दर्ज कर सकती है जबकि 12110 के स्तर पर सपोर्ट है। प्रोसेसर और व्यापारी अपनी वर्तमान आवश्यकता के अनुसार खरीद रहे हैं क्योंकि बाजार की कीमतें पिछले साल की तुलना में अभी भी उच्च स्तर पर हैं। वर्तमान में सामान्य की तुलना में कम रकबे के कारण उत्पादन में कमी की आशंका से कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 80% अधिक हैं और जनवरी 2022 के बाद से 38% अधिक हैं। लेकिन अच्छी निर्यात मांग से कीमतों को समर्थन मिल रहा है। वाणिज्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2022 में धनिया का निर्यात 5.5% बढ़कर 3320 टन हो गया, जो पिछले साल 3150 टन था।

अन्य कमोडिटीज

कपास की खेती के लिए अमेरिका में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी के रूझान के कारण कॉटन वायदा की कीमतें 45900 के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। यदि कीमतें 45600 के स्तर से ऊपर बनी रहती हैं तो 47000 के स्तर तक बढ़ सकती हैं जबकि सपोर्ट 43490 पर है। इस बीच, सरकार सीमा शुल्क को हटाकर कपास की कीमतों को नियंत्रित करने में विफल रही है क्योंकि उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों देश में कपास की कीमतों को मदद मिल रही है। इसके अलावा, यदि कपास की कीमतों में वृद्धि जारी रहती है तो सरकार कपास के निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा सकती है। उत्पादन में कमी की आशंका, धीमी आवक, बेहतर धरेलू और निर्यात मांग के कारण वर्तमान समय में कपास की कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 111.2% अधिक हैं और नए साल में लगभग 33.7% बढ़ी है। रिकॉर्ड ऊंची कीमतों पर मिले अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी जारी रखी है क्योंकि आयात भी महंगा होता है। नई फसल की आवक सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत में ही शुरू होगी। सीएआई के अनुसार, धरेलू कपास की आवक पिछले साल की तुलना में 25% या 88.95 लाख गांठ घटकर 238 लाख गांठ रह गई और कपास उत्पादन अनुमान में भी कटौती की गई है। अप्रैल में कपास उत्पादन पिछले 343 लाख गांठ के अनुमान की तुलना में 8 लाख गांठ कम होकर 335.18 लाख गांठ होने का अनुमान है।

ग्वारसीड वायदा की कीमतें पिछले सप्ताह 5 सप्ताह के निचले स्तर तक लुढ़क गईं लेकिन निचले स्तरों पर मांग में सुधार के कारण कीमतों में रिकवरी हुई। इसके अलावा, सामान्य मौसम के पूर्वानुमान से भी कीमतों पर रोक लगी जबकि ग्वारगम की निर्यात मांग से कीमतों को समर्थन मिल रहा है। अब अगर कीमतें 6100 के स्तर पर सपोर्ट और 6610 के रजिस्ट्रेंस के साथ कारोबार कर सकती है। वर्तमान में, पिछले 5 वर्षों में सबसे कम उत्पादन, कई वर्षों में कम स्टॉक और अच्छी निर्यात मांग की संभावना से कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 57% अधिक हैं। अमेरिकी तेल रिगों की संख्या भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 205 बढ़कर 549 हो गई है। फरवरी 2022 में, ग्वारगम का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 55.6% बढ़कर 31000 टन हो गया है, जबकि 2021/22 (अप्रैल-फरवरी) में निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 40% बढ़कर 2.95 लाख टन हुआ है।

कैस्टरसीड (मई) में पिछले सप्ताह तेजी के रूझान के साथ कारोबार किया। यदि कीमतें 7300 के स्तर के रजिस्ट्रेंस को पार करती हैं और 7400 के स्तर से ऊपर बनी रहती हैं, तो 7700 के स्तर तक बढ़ जाएंगी। सपोर्ट 7200 के स्तर पर है। कम उत्पादन अनुमान के कारण वर्तमान में अरंडी की कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 39% अधिक हैं, जबकि इस वर्ष कीमतों में 23% से अधिक की वृद्धि हुई है। अरंडी की मांग-आपूर्ति का संतुलन तेजी के पक्ष में है क्योंकि 2021-2022 के लिए अनुमानित खपत लगभग 19-20 लाख टन है जबकि उत्पादन और कैरी ओवर स्टॉक मिलाकर कुल सप्लाई 20-21 लाख टन है। निचले स्तर खरीददारी से मेंथा तेल की कीमतें 5 सप्ताह के निचले स्तर से रिकवर कर गई हैं। तत्काल समर्थन 1050 के स्तर और प्रतिरोध 1120 पर है और आने वाले दिनों में 1150 के स्तर पर पहुंचने की संभावना है।

सर्पाफा

अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों की चिंता से सुरक्षित निवेश को लेकर सोने में कुछ रुचि फिर से बढ़ने के कारण सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। लेकिन फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी की संभावना से जनवरी के बाद से पहली मासिक गिरावट दर्ज हुई है। अमेरिकी जीडीपी के निराशाजनक आंकड़ों ने दरों में आक्रामक बढ़ोतरी को लेकर फेड पर, जैसा कि उसने संकेत दिया है, से दबाव को कुछ कम कर दिया है। इससे सोने की कीमतों को थोड़ी राहत मिली दी है और डॉलर को थोड़ा पीछे हटाना पड़ा है। फेड अधिकारियों ने इस साल ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गति को तेज करने की योजना बनायी है, लेकिन अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर जाने से बचने के लिए कहां रुकना है, इसका निर्णय या ब्रेक का निर्णय क्या हो सकता है, इस पर बंटो हुआ है। छोटी अवधि में अधिक अमेरिकी ब्याज दरें और बांड यील्ड शून्य-उपज वाले बुलियन को धारण करने की अवसर लागत को बढ़ाती हैं। जनवरी के बाद से सोने की कीमतें अपनी पहली मासिक गिरावट हुई है, क्योंकि अप्रैल महीने में डॉलर और अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी की यील्ड बढ़ी है। डॉलर पिछले हफ्ते में अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले 20 साल के उच्च स्तर के करीब पहुंच गया। मालगाड़ी, जिसे अमेरिकी डॉलर के रूप में भी जाना जाता है, को किसी विंदु पर धीमा करना होगा और जब ऐसा होता है तो यह सोने की कीमतों के लिए अच्छा संकेत हो सकता है। तकनीकी स्तर पर कोमेक्स में सोने की कीमतों में तेजी का रूझान है और कीमतों को 1890 डॉलर के स्तर के पास सपोर्ट जारी रह सकता है और अल्पावधि में कीमतें 1940 के स्तर पर पहुंच सकती है। एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में तेजी का रूझान रह सकता है जहां कीमतों को 50800 के पास सपोर्ट और 52300 के पास रजिस्ट्रेंस रह सकता है। चांदी भी सोने के नक्शेकदम पर कारोबार कर सकती है और 63000-67800 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

पूरे यूरोपीय संघ द्वारा रूसी कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने की संभावनाओं के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। लेकिन वैश्विक कच्चे तेल के बाजार में सप्लाई की कमी है। चीन के कुछ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कोविड परीक्षण करने के निर्णय से भी मांग में कमी की संभावनाओं के बारे में चिंता बढ़ी है। जर्मनी ने बाल्टिक सागर के बंदरगाह ग्दान्स्क के माध्यम से गैर-रूसी निर्यातकों से तेल आयात सुरक्षित करने के लिए पोलैंड के साथ एक समझौता किया है। जर्मनी सहित कुछ यूरोपीय देशों ने अब तक रूसी कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। गैर-रूसी निर्यातकों से आयात करने के लिए इस कदम से यूरोपीय संघ द्वारा रूसी तेल आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। यहां उल्लेखनीय है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ अन्य यूरोपीय देशों ने रूसी कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीजिंग में अधिकारियों ने कोविड-19 के प्रकोपों पर नकल कसना जारी रखा है और एक महीने से शंघाई में जारी तालाबंदी को टालने की कोशिश कर रहे हैं। इस सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों के बड़े दायरे में कारोबार करने की संभावना है और कीमतें 7600-8250 के दायरे में कारोबार कर सकती है। नेचुरल गैस के बाजारों में तेजी दर्ज की गई है, क्योंकि संयुक्त राज्य में तापमान सामान्य से थोड़ा ठंडा रहा है। इस वजह से, बाजार में बहुत अधिक अस्थिरता वाला कारोबार जारी रहेगा क्योंकि जब यूरोपीय संघ संयुक्त राज्य अमेरिका से एलएनजी खरीदता है, और रूस से नेचुरल गैस खरीदने की बात आती है, तो बहुत सारी अटकलें होने लगती हैं। इस सप्ताह में कीमतों में दोनों तरफ की हलचल जारी रह सकती है और कीमतें 495-570 के दायरे में होगी, जहां निकट सपोर्ट पर खरीदना और रजिस्ट्रेंस के पास बेचना रणनीति होगी।



बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें नरमी के रुझान के साथ एक दायरे में कारोबार कर सकती हैं क्योंकि चीन में कोविड-19 लॉकडाउन और अमेरिकी ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी की संभावना से मंदी की आशंकाओं का असर सेंटोमेंट पर पड़ सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों ने इस साल ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गति को तेज करने की योजना बनायी है। कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी और सरकार से महामारी राहत राशि में गिरावट के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में अप्रत्याशित रूप कमजोर हुई है। डॉलर के 20 साल के उच्च स्तर पर पहुंचने से अन्य मुद्राओं का उपयोग करने वाले खरीदारों के लिए बेस मेटल अधिक महंगा होता जा रहा है। कमजोर युआन भी बेस मेटल में नरमी का कारण है और उम्मीद है कि युआन थोड़ा और कमजोर हो सकता है, जिससे बेस मेटल की कीमतों पर दबाव बना रहेगा। इस बीच, उम्मीद है कि चीन कोविड-19 लॉकडाउन के नुकसान का मुकाबला करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे के निर्माण को आगे बढ़ाएगा। तांबे की कीमतें 775-810 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। शीर्ष धातु उपभोक्ता चीन में कोविड-19 के कारण मांग को लेकर चिंता और बढ़ते भंडार ने प्रमुख उत्पादक पेरू से आपूर्ति में व्यवधान की आशंकाओं को दूर कर दिया है। एल्यूमीनियम की कीमतें 245-262 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। दो यूरोपीय देशों को गैस की आपूर्ति समाप्त होने के बाद ऊर्जा क्षेत्र पर बढ़ते तनाव से लंबी अवधि में एल्यूमीनियम की कीमतों को मदद मिलती रह सकती है। निकल की कीमतें 2400-2650 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। इंटरनेशनल निकल स्टडी ग्रुप के अनुसार वैश्विक स्तर पर निकल की मांग 2022 में बढ़कर 3.02 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो 2021 में 2.78 मिलियन टन थी। जिंक की कीमतें नरमी के रुझान के साथ 340-365 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। स्विस् जिंक स्मेल्टर न्यारस्टार ने कहा कि वह होबार्ट में इलेक्ट्रो लिसेस प्लांट बनाने के लिए 284 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया में धातु के उत्पादन को बढ़ाने में मददगार है। लेड की कीमतें 182-192 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

विश्व स्तर पर सोने की मांग.....भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच चमक बरकरार


एक प्रसिद्ध कहावत है: 'जरूरत में दोस्त ही दोस्त होता है।' भू-राजनीतिक अनिश्चितता, महामारी से संबंधित परिस्थिति और वैश्विक आर्थिक मंदी के संकट के समय में अपने पैसे को निवेश करने और अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए सोना हमेशा से निवेशकों के बीच प्रमुख पसंद होती है। भू-राजनीतिक संकट, आपूर्ति श्रृंखला की कठिनाइयाँ और बढ़ती मुद्रास्फीति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला है और निवेशकों की रुचि फिर से बढ़ी है, जिससे मार्च में सोने की कीमतें थोड़े ही समय के लिए 2,070 अमरीकी डालर प्रति औंस पर पहुंच गई, जो अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से थोड़ी ही दूर रहा।

- अधिक ईटीएफ प्रवाह, भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के समय में एक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग के कारण वैश्विक स्तर पर सोने के बाजार ने वर्ष 2022 की पहली तिमाही में साल-दर-साल 34 प्रतिशत की वृद्धि के साथ शुरुआत की।
- वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान वैश्विक स्तर पर सोने की मांग 1,234 टन रही, जबकि 2021 की पहली तिमाही के दौरान यह 919.1 टन थी।
- एक बार फिर, निवेश मांग सबसे महत्वपूर्ण रही है क्योंकि निवेशकों ने सोने पर आधारित एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड में भारी निवेश किया। सोने के ईटीएफ में 2020 की तीसरी तिमाही के बाद से 269 टन का सबसे अधिक तिमाही निवेश है जो 2021 से 173 टन की शुद्ध वार्षिक निकासी के विपरीत है और सोने की बढ़ती कीमतों के कारण हुआ है।
- वैश्विक स्तर पर सोने की बार्स और सिक्के की मांग 2021 की समान अवधि के 52 टन की तुलना में 20 प्रतिशत की गिरावट 282 टन हुई है।
- आभूषणों के लिए मुख्य रूप से चीन और भारत में कम मांग के कारण सोने की वैश्विक मांग साल-दर-साल 7 फीसदी कम होकर 474 टन रह गई, जो 2021 की जनवरी-मार्च तिमाही में 538.7 टन थी।
- डब्ल्यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सोने की मांग 2021 की पहली तिमाही में 81 टन से 1 प्रतिशत बढ़कर चार साल के उच्च स्तर 82 टन पर पहुंच गई।
- केंद्रीय बैंकों ने 2022 की पहली तिमाही में 84 टन सोना खरीदा, जो 2021 की पहली तिमाही के 117.5 टन से 29 प्रतिशत कम है। केंद्रीय बैंक अनिश्चितता के समय में सोने के को महत्व देते हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि खदानों से अधिक उत्पादन के कारण सोने की कुल आपूर्ति में सालाना आधार पर 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2021 की समान तिमाही के 856 टन से बढ़कर जनवरी-मार्च 2022 में 1,108.8 टन तक पहुंच गई।
- इसके अलावा, सोने की ऊंची कीमतों के कारण 2021 की जनवरी-मार्च तिमाही में 269.3 टन की तुलना में इस वर्ष रीसाइक्लिंग में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और कुल 310 टन तक पहुंच गई।

भारत में सोने की मांग

- इस साल के पहले तीन महीनों में भारत में सोने की मांग 18% घटकर 135.5 टन रह गई, जिसका मुख्य कारण कीमतों में तेज वृद्धि है। मूल्य के हिसाब से, जनवरी-मार्च की अवधि में सोने की मांग 12% कम होकर 61,550 करोड़ रुपये रह गई। एक साल पहले की अवधि में यह 69,720 करोड़ रुपये थी।
- रिपोर्ट के अनुसार, नवीनतम मार्च तिमाही के दौरान देश में आभूषणों की कुल मांग 26% कम होकर 94.2 टन रह गई। पिछले साल की समान अवधि में यह 126.5 टन थी।
- सोने की कुल निवेश मांग एक साल पहले की समान अवधि में 39.3 टन की तुलना में नवीनतम मार्च तिमाही में 5% बढ़कर 41.3 टन हो गई।
- आरबीआई ने इस साल की पहली तिमाही के दौरान सोना खरीदना जारी रखा और 8 टन खरीदा।

बाजार की मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निवेश की मांग मजबूत रहने की उम्मीद है क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति और बढ़े हुए भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेशकों के बीच सोने की मांग बढ़ने की संभावना है।



स्रोत: डब्ल्यूजीसी



एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेवा और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेवा (रिसर्च एनालिसिस) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिसिस के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेवा द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिसिस द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिसिस, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

डिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सल्यूशन एवम् उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ड्रॉकरेंज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।